

RAIDEEP INDUSTRIES LIMITED

Regd. Off: C-193 A, Phase VI, Focal Point, Ludhiana Punjab-141010, Ph no. : +91-161-2676893,
9872972951, Website: www.raideepindustries.com, Email id: raitex3@gmail.com,
CIN: L18101PB1995PLC017415

Date: 10.08.2022

To,
The Head- Listing Compliance
BSE Limited
PhirozeJeejeebhoy Towers
Dalal Street
Mumbai-400001
Security code: 540270

To,
The Head Listing Compliance
Calcutta Stock Exchange Limited
7, Lyons Range, Dalhousie,
Murgighata, BBD Bagh,
Kolkata- 700001
Scrip Code: 028396

Sub: Intimation under Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015-Newspaper Publication

Dear Sir/Madam,

Pursuant to Regulation 30 of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirement) Regulation, 2015 please find attached herewith Newspaper Advertisement w.r.t. Unaudited Standalone and Consolidated Financial Results for the quarter ended 30th June 2022 as was approved at the Board meeting of the Company held on Monday, 8th August, 2022 (commenced at 01:00 P.M. and concluded at 5:00 PM.), published in leading English Newspaper (Business Standard) and in Regional Language (Hindi) Newspaper (Business Standard Hindi Edition).

Kindly take the above information on your records.

**Thanking You,
For Raideep Industries Limited**

**(Rai Sahib)
Managing Director
DIN: 01582498**

Place: Ludhiana

| POONAWALLA FINCORP LIMITED (FORMERLY, MAGMA FINCORP LIMITED) REGD AND CORP. OFF: 801, 8th FLOOR, ZERO ONE IT PARK, SR. No. 79/1, GHORPADI, MUNDHWA ROAD, PUNE 411036 | | DEMAND NOTICE UNDER SECTION 13(2) OF THE SARFAESI ACT, 2002 | |
|---|---|--|--------------------|
| You the below mentioned Borrowers/Co-borrowers/Guarantors have availed Home loans/Loans against Property facility (ies) by mortgaging your Immovable property/ies from Magma Fincorp Ltd "MFL" now renamed as Poonawalla Fincorp Ltd "PFL". You defaulted in repayment and therefore, your loan/s was classified as Non-Performing Assets. A Demand Notice under Section 13(2) of Securitisation and Reconstruction of Financial Asset and Enforcement of Security Interest Act 2002 for the recovery of the outstanding dues sent on last known addresses however the same have returned un-served. Hence the contents of which are being published herewith as per Section 13(2) of the Act read with Rule 3(1) of The Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 as and by way of Alternate Service upon you. | | | |
| Details of the Borrowers, Co-borrowers, Guarantors, Securities, Outstanding Dues, Demand Notice sent under Section 13(2) and Amount claimed there under are given as under | | | |
| SR. NO. | NAME OF THE BORROWER, CO-BORROWER, GUARANTOR AND LOAN AMOUNT | DETAILS OF THE SECURED ASSET | DEMAND NOTICE DATE |
| 1. | SAJJAN KUMAR, SUMAN LOAN AMOUNT: RS.2000000/- LOAN NO: HL/0035/H/14/000061 | ALL THAT PIECE AND PARCEL OF PROPERTY I.E. KHASRA NO. 63/3/1 MIN, KHEWAT/KHATA NO.707/1181, MEASURING 250 SQ. YARDS(142 SQ.YARDS +108 SQ.YARDS) SITUATED AT UCHANA KALAN. BOUNDARIES OF AREA I.E 142 SQ.YARDS: EAST-DANDA :-70'-04" PROPERTY OF BARU RAM, WEST-DANDA :- 70'-04" NORTH :- DANDA:-18'00" STREET, SOUTH-DANDA :-18'-00" PROPERTY OF SAJJAN KUMAR & BOUNDARIES OF AREA I.E 108 SQ.YARDS: EAST-DANDA:-70'-04" PROPERTY OF SELLER, WEST-DANDA :-70'-04" PLOT OF TARA CHAND NORTH:- DANDA:-14'00" STREET, SOUTH-DANDA:-14'-00" PROPERTY OF SAJJAN KUMAR | 13-07-2022 |
| 2. | PARDEEP KUMAR, RANI, M S RANI PACKAGINGS, KHARAILLAL LOAN AMOUNT: RS.3336816.94P LOAN NO: HL/0139/H/14/000021 | ALL THAT PIECE AND PARCEL OF HOUSE BUILD ON PLOT NO.124 AND PART OF 125, MEASURING 283 SQ. YARDS, BEARING MUNICIPAL PROPERTY ID NO.294C199U487 SITUATED AT LAKSHMI GARDEN, BLOCK 'B', MOUJAJ CHANDPUR, TEHSIL, JAGADHRI, DIST. YAMUNA NAGAR, WITHIN MUNICIPAL CORPORATION, YAMUNA NAGAR, JAGADHRI, OWNED VIDE REGD. SALE DEED NO.8619 DATED 3.1.1992 MEASURE AND BOUNDED AS NORTH:- 44'-10" - HOUSE OF HARI CHAND, SOUTH:- 44'-8" STREET, EAST:- 55'-6" - HOUSE OF HARBANS SINGH, WEST:- 58'-5" HOUSE OF NAND LAL | 13-07-2022 |
| You the Borrower/s and Co-Borrower/s/Guarantors are therefore called upon to make payment of the above mentioned demanded amount with further interest as mentioned hereinabove in full within 60 Days of this Notice failing which the undersigned shall be constrained to take action under the act to enforce the above-mentioned security/ies. Please Note that as per Section 13(13) of The Said Act, You are in the meanwhile, restrained from transferring the above-referred securities by way of sale, lease or otherwise without our consent. | | | |
| FOR POONAWALLA FINCORP LIMITED FORMERLY KNOWN AS MAGMA FINCORP LTD) AUTHORIZED OFFICE | | | |
| PLACE: HARYANA DATE: 10.08.2022 | | | |

| TRIDENT GROUP™ Being different is normal | | TRIDENT LIMITED | | |
|--|--|--|---------------------------|---|
| Regd. Office : Trident Group, Sanghera-148101, India CIN : L99999PB1990PLC010307 Toll Free No. 1800-180-2999 Fax : 0161-5039900 Website : www.tridentindia.com e-mail : investor@tridentindia.com | | | | |
| EXTRACT OF UNAUDITED STANDALONE & CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED ON JUNE 30, 2022 | | | | |
| (₹ in Millions) | | | | |
| Sl. No. | Particulars | Consolidated | | |
| | | Quarter Ended 30.06.2022 (Unaudited) | 30.06.2021 (Unaudited) | Year Ended 31.03.2022 (Audited) |
| 1. | Total Income from Operations | 16,846.5 | 14,852.5 | 70,202.3 |
| 2. | Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items) | 1,720.2 | 2,746.0 | 11,158.5 |
| 3. | Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) | 1,723.9 | 2,746.0 | 11,164.5 |
| 4. | Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) | 1,293.5 | 2,068.1 | 8,337.4 |
| 5. | Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)] | 1,067.5 | 1,990.8 | 8,302.0 |
| 6. | Paid-up Equity Share Capital | 5,096.0 | 5,096.0 | 5,096.0 |
| 7. | Reserves (excluding Revaluation Reserve and cash flow hedge reserve) | 27,273.2 | 23,190.9 | 26,374.6 |
| 8. | Securities Premium Account | | | 3,333.7 |
| 9. | Net Worth (excluding PPE fair valuation reserve and Effective portion of cash flow hedge) | 32,819.1 | 28,286.9 | 31,470.6 |
| 10. | Paid up Debt Capital / Outstanding Debt | 11,764.1 | 14,421.4 | 15,706.2 |
| 11. | Outstanding Redeemable Non- Convertible Debentures (Nos.) | | | 1,250 Debentures of FV of ₹ 7,50,000/- each |
| 12. | Debt Equity Ratio | 0.36 | 0.51 | 0.50 |
| 13. | Earnings Per Share (of ₹ 1/- each) (for continuing and discontinued operations) | | | |
| | 1. Basic: | 0.26 | 0.41 | 1.67 |
| | 2. Diluted: | 0.26 | 0.41 | 1.67 |
| 14. | Capital Redemption Reserve | | | 600.00 |
| 15. | Debtenture Redemption Reserve | Not Applicable as per notification G.S.R. 574(E), dated August 16, 2019 | | |
| 16. | Debt Service Coverage Ratio | 12.40 | 16.32 | 12.57 |
| 17. | Interest Service Coverage Ratio | 14.88 | 16.32 | 18.74 |
| Notes: | | | | |
| a) The above is an extract of the detailed format of Standalone and Consolidated Financial Results for the quarter ended on June 30, 2022, filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 & 52 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. | | | | |
| b) For the other line items referred in Regulation 52 (4) of the Listing Regulations, pertinent disclosures have been made to the Stock Exchanges i.e BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited. The full Quarterly Standalone and Consolidated Financial Results are available on Company's website i.e www.tridentindia.com and the website of the stock exchanges i.e www.bseindia.com and www.nseindia.com. | | | | |
| c) The results have been prepared in accordance with the Indian Accounting Standards (IND AS) as prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with relevant rules issued thereunder. | | | | |
| d) Additional Information on Standalone financial results are as follows: (₹ in Millions) | | | | |
| Sl. No. | Particulars | Standalone | | |
| | | Quarter Ended 30.06.2022 (Unaudited) | 30.06.2021 (Unaudited) | Year Ended 31.03.2022 (Audited) |
| 1. | Total Income | 16,717.1 | 14,798.6 | 69,415.2 |
| 2. | Profit Before Tax | 1,647.7 | 2,700.4 | 10,916.8 |
| 3. | Profit After Tax | 1,238.0 | 2,035.0 | 8,149.5 |
| 4. | Total Comprehensive Income after Tax | 1,012.1 | 1,957.5 | 8,114.3 |
| e) The above results have been reviewed by the Audit Committee and thereafter approved by the Board of Directors in their respective meetings held on August 9, 2022. | | | | |
| By Order of the Board of Directors For TRIDENT LIMITED Sd/- Deepak Nanda Managing Director DIN: 00403335 | | | | |
| Date : August 9, 2022 | | | | |

| RAIDEEP INDUSTRIES LIMITED | | | | |
|---|------------------------|------------|---------------------|------------|
| CIN: L18101PB1995PLC017415 | | | | |
| Regd. Off: C-193 A, Phase VI, Focal Point, Ludhiana Punjab-141010 | | | | |
| Ph No. : +91-161-2676893 | | | | |
| Website: www.raideepindustries.com, Email id: raite3@gmail.com | | | | |
| Extract of the Consolidated Unaudited Financial Results for the Quarter Ended on June 30, 2022 (Regulation 47(1) (b) of the SEBI (LODR) Regulations, 2015) | | | | |
| Particulars | Quarter Ended | | Year Ended | |
| | 30.06.2022 | 31.03.2022 | 30.06.2021 | 31.03.2022 |
| | (Unaudited) | (Audited) | (Unaudited) | (Audited) |
| Total income from operations | 287.47 | 666.86 | 189.77 | 210.22 |
| Other Income | 17.27 | 19.96 | 13.75 | 69.08 |
| Net Profit/(loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items) | 4.16 | 6.34 | 5.33 | 22.22 |
| Net Profit / (Loss) for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) | 4.16 | 6.34 | 5.33 | 22.22 |
| Net Profit/(loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) | 3.16 | 4.48 | 3.93 | 16.36 |
| Share of Net Profit of Associates and Joint Ventures accounted for using the equity method | 16.98 | 25.35 | 9.87 | 68.00 |
| Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)] | 20.14 | 29.83 | 13.80 | 84.36 |
| Equity Share Capital | 550.80 | 550.80 | 550.80 | 550.80 |
| Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of previous year | - | - | - | 133.02 |
| Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) for continuing and discontinued operations:- | | | | |
| 1. Basic : | 0.37 | 0.54 | 0.25 | 1.53 |
| 2. Diluted : | 0.37 | 0.54 | 0.25 | 1.53 |
| Note: | | | | |
| 1. The information w.r.t. the Standalone Audited Financial Results for the Quarter and Year Ended June 30, 2022 are as follows: | | | | |
| (Amt. in lakhs) | | | | |
| Particulars | 30.06.2022 (Quarterly) | | 31.03.2022 (Yearly) | |
| Turnover | 304.74 | | 2079.30 | |
| Profit before tax | 4.16 | | 22.22 | |
| Profit after tax | 3.16 | | 16.36 | |
| 2. The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results is available on the website of the Stock Exchange www.bseindia.com and on the website of the Company at www.raideepindustries.com | | | | |
| For Raideep Industries Limited Sd/- Rai Sahib Managing Director DIN: 01582498 | | | | |
| Date: 08.08.2022 Place: Ludhiana | | | | |

| सेक्टर बैंक ऑफ इंडिया Central Bank of India | | Central Bank of India Regional Office, K.P. Complex, Near Hotel Park Plaza, Ferozpur Road, Ludhiana-141001 | | |
|---|--|--|-------------|--|
| DEMAND NOTICE UNDER SARFAESI ACT 2002 | | | | |
| A Notice is hereby given that the following borrowers have defaulted in the repayment of principal and payment of interest of credit facilities obtained by them from the bank and said facilities have turned Non Performing Assets. The Notice under section 13(2) of Securitization and Reconstruction of Financial Assets & Enforcement of Security Interest Act 2002 have been issued by Authorized Officer of Bank to Borrowers & Guarantors on their last known addresses. However, in some of the cases the notices have been returned unserved and in other cases acknowledgments have not been received. As such Borrowers/Guarantors are hereby informed by way of public notice about the same. | | | | |
| NAME OF THE BRANCH/ BORROWER(S) AND GUARANTOR(S) | DESCRIPTION OF PROPERTY/IES | DATE OF DEMAND NOTICE | DATE OF NPA | AMOUNT AS PER DEMAND NOTICE |
| MACHHIWARA Borrowers : Mrs. Usha Rani W/o Krishan Lal, H. No. 614, Rahon Road, Machhiwara-141115. 2. Mr. Ranjit Kaur, H. No. 614, Rahon Road, Machhiwara-141115. Guarantor : Mr. Balwinder Kumar, H. No. 614, Rahon Road, Machhiwara-141115. | Property measuring 0K-16M comprising in Khawat No. 797, Khatauni No. 922, Killa No. 73/13/2/1/2, as per Jamabandi for the year 2016-17, situated at Machhiwara-I, H.B. No. 75, Sub Tehsil Machhiwara, Tehsil Samrala, District Ludhiana. Owned by Usha Rani vide sale deed bearing Wasika No. 3006 dated 06.09.1979. | 20.11.2021 | 29.11.2021 | Rs. 10,20,823/- along with interest on @ 9.45 % on monthly rests to be calculated from 08.03.2022 |
| KHANNA Borrowers : 1. Mrs. Ranjit Kaur W/o Mr. Karamvir Singh, H. No. 10-A, Village Ikolahi, Tehsil Khanna, Distt. Ludhiana. 2. Mr. Hardev Singh S/o Mr. Karamvir Singh, H. No. 10-A, Village Ikolahi, Tehsil Khanna, Distt. Ludhiana. Guarantor : Mr. Narjit Singh S/o Balwinder Singh, Village Chak Mafi, Tehsil Samrala, Distt. Ludhiana-141401. | 18 Kanal-15-2/3 Marla detailed as under:- A. Land measuring 0 Kanal-8-2/3 Marla i.e. 1/3 share of land measuring 1 Kanal-6 Marla comprised in Khawat No. 377/341, Khatauni No. 385, Khasra No. 1040(0-12), 1041(0-14). B. Land measuring 18 Kanal 7 Marla out of land measuring 79 Kanal 1 Marla Comprised in Khawat No. 377/341, Khatauni No. 385, Khasra No. 844(12-4), 845(12-4), 846(11-9), 847(3-16), 848(4-4), 875(8-0), 876 (6-13), 877(6-7), 878(6-16), 879(4-8), 880 (3-0). As per jamabandi for the year 2007-08, situated within revenue estate of Village Ikolahi, Tehsil Khanna, Distt. Ludhiana., Owned by Ms. Ranjit Kaur widow of Karmvir Singh vide mortgage deed 1225 dated 25.06.2013. | 20.11.2021 | 31.03.2021 | Rs. 10,46,188/- along with interest @ 8.70% p. a. on monthly rests to be calculated from 20.11.2021 |
| FOCAL POINT, LUDHIANA Borrowers : M/S H C JAIN FORGINGS, E-489 (A), Phase VI, Focal Point, Ludhiana, 141010 Through Partners : 1. Mr. Premjit Jain S/o Sh. Amarjit Jain, R/o H. No. B-XIX 628/2A, Opposite Old DMC, Maklerkotla House, Civil Lines, Ludhiana. 2. Mr. Amit Jain S/o Sh. Premjit Jain, R/o H. No. B-XIX 628/2A, Opposite Old DMC, Maklerkotla House, Civil Lines, Ludhiana. 3. Mrs. Karuna Jain W/o Sh. Premjit Jain, R/o H. No. B-XIX 628/2A, Opposite Old DMC, Maklerkotla House, Civil Lines, Ludhiana. 4. Mrs. Pooja Jain W/o Mr. Amit Jain, R/o H. No. 957, Sector 13, Urban Estate, Kamal, Haryana-132001. | Factory measuring 591.66 Sq. Yds. situated at E-489-A, Focal point, Phase VI, Ludhiana, in the name of M/S H C JAIN FORGINGS. Bounded by : East: Road admeasuring 88'-09", West: Plot No. 490, Chaman Lal Bansal admeasuring 88'-09", North: Road admeasuring 60'-0", South: Plot No. E-489 admeasuring 60'-0". | 25.05.2022 | 30.04.2022 | Rs. 56,89,386.84 CC- Rs. 29,35,121/- + Covid 19 Sahayata TL- Rs. 15,94,219/- Term Loan Rs. 273,7323.84) along with interest on Cash Credit @ 8.55%, Covid 19 Sahayata TL @ 7.30% and TL @ 9.60% on monthly rests to be calculated from 25.5.2022 |
| FOCAL POINT, LUDHIANA Borrower : M/S Golu International (Sh. Sanjeev Jaggi - Proprietor) 14, A Industrial Area, Ludhiana. Guarantors : 1. Mr. Sanjeev Jaggi, R/o H. No. 381, B, BRS Nagar, Gate No. 3, Opp. Defence Colony, Ludhiana 141001. 2. Sh. Nishant Jaggi S/o Late Sh. Suresh Jaggi, R/o Backside Milk Dairy, Near Narang Cement Store, Adjoining Basant City & Royal Avenue, Village Threekay, Ludhiana. | 1. Industrial property measuring 1663.75 Sq. Yards situated at Textile Colony, Seera Road, Wadia Vill. Seera, Ludhiana in the name of Sanjeev Jaggi. Sale deed No. 38433 dated 17.02.1995. 2. Plot measuring 224.33 Sq. Yards at Basant City, Near Royal Avenue, Wadia Mauja Threekay, Ludhiana, in the name of Nishant Jaggi. Sale Deed No. 4033 dated 16.05.2006. | 12.07.2022 | 13.05.2022 | Rs. 2,00,86,910/- (CC- Rs. 51,02,239/- +FILL- Rs. 1,57,463/-, CENT GECL MSME- Rs. 14,99,770/-, Term Loan Rs. 12,91,5478/-, GECL Extension 1.0 - Rs. 6,09,423/-, along with intt. on Cash Credit @ 7.90%, FITL @ 11.35%, CENT GECL. |
| FOCAL POINT, LUDHIANA Borrower : M/s Kamal International, Sh. Parminder Singh - Prop. 10998/2, St. No. 6, Partap Nagar, Ludhiana. Guarantors : Smt. Balwinder Kaur W/o Sh. Parminder Singh, 10998/2, St. No. 6, Partap Nagar, Ludhiana And Sh. Parminder Singh - Proprietor, 10998/2, St. No. 6, Partap Nagar Ludhiana. | 1. Industrial property measuring 1663.75 Sq. Yards situated at Textile Colony, Seera Road, Wadia Vill. Seera, Ludhiana in the name of Sanjeev Jaggi. Sale deed No. 38433 dated 17.02.1995. 2. Plot measuring 224.33 Sq. Yards at Basant City, Near Royal Avenue, Wadia Mauja Threekay, Ludhiana, in the name of Nishant Jaggi. Sale Deed No. 4033 dated 16.05.2006. | 01.08.2022 | 28.06.2022 | Rs. 54,63,258/- (CC- Rs. 29,99,887.9 +FILL- Rs. 1,45,000/-, CENT GECL MSME- Rs. 4,56,409/-, Term Loan cent mortgage- Rs. 1313354, GECL Extension 1.0 - Rs. 2,79,079/-, Term Loan Rs. 2,69,528/-), along with interest on Cash Credit @ 11.75%, FITL @ 8.70%, CENT GECL @ 7.50%, term loan @ 8.70% and GECL extension 1.0 @ 8.25% on monthly rests to be calculated from 01.8.2022. |
| RAJPURA Borrower : M/S Shivalk Educational Welfare Society, Plot No. 6, Block No. 2, Patel Colony Rajpura, Distt. Patiala-140401. Guarantors : 1. Kaushal Kumar S/o Ram Prasad, C/o Gautam Engg. Works, St. No. 7, Hira Bagh, Patiala (Pb.) - 147001. 2. Sakshi Rani D/o Dinesh Kumar, 1183 B, Vikash Nagar, Rajpura, Distt. Patiala (Punjab) -140401. | 8 Kanals comprised in Khawat/Khata No.4/6, Khasra Nos. 23/19/1(3-08), 21/2(4-12) situated at Village Beer Kauli, Tehsil & District Patiala. Bounded as under : East: Agriculture Land West: Lease Land of Shivalk Educational Welfare Society, North: Road-Narru Road, South: Agriculture Land, Owned by M/S Shivalk Educational Welfare Society, Plot No. 6, Block No. 2, Patel Colony, Rajpura Town, Tehsil-Rajpura, District Patiala vide Wasika No. 3222 dated 10/06/2013 & wasika no. 3223 dated 10/06/2013. 2. Residential Property House No. 77, measuring 200 Sq. Yards, situated at Palika Vihar, Ambala City, Bounded as under : East: Rasta, West: House No. 80, North: House no 78, South: House No. 76, Owned by Smt. Vijay Kumari W/o Naresh Kumar R/o H. No. 77, Palika Vihar. Ambala City vide wasika No. 2380 dt. 17.08.2007. | 12.07.2022 | 31.03.2022 | Rs. 2,50,00,000/- along with interest on Term Loan @ 10.95 % on monthly rests, Rs. 19,80,000/- along with interest on WCTL @ 11.10% on monthly rests and Rs. 8,95,000/- along with interest on FITL @ 8.90% on monthly rests to be calculated from 12.07.2022 |
| RAJPURA Borrower : M/S Shivalk Educational Welfare Society, Plot No. 6, Block No. 2, Patel Colony Rajpura, Distt. Patiala-140401. Guarantors : 1. Kaushal Kumar S/o Ram Prasad, C/o Gautam Engg. Works, St. No. 7, Hira Bagh, Patiala (Pb.) - 147001. 2. Sakshi Rani D/o Dinesh Kumar, 1183 B, Vikash Nagar, Rajpura, Distt. Patiala (Punjab) -140401. | 8 Kanals comprised in Khawat/Khata No.4/6, Khasra Nos. 23/19/1(3-08), 21/2(4-12) situated at Village Beer Kauli, Tehsil & District Patiala. Bounded as under : East: Agriculture Land West: Lease Land of Shivalk Educational Welfare Society, North: Road-Narru Road, South: Agriculture Land, Owned by M/S Shivalk Educational Welfare Society, Plot No. 6, Block No. 2, Patel Colony, Rajpura Town, Tehsil-Rajpura, District Patiala vide Wasika No. 3222 dated 10/06/2013 & wasika no. 3223 dated 10/06/2013. 2. Residential Property House No. 77, measuring 200 Sq. Yards, situated at Palika Vihar, Ambala City, Bounded as under : East: Rasta, West: House No. 80, North: House no 78, South: House No. 76, Owned by Smt. Vijay Kumari W/o Naresh Kumar R/o H. No. 77, Palika Vihar. Ambala City vide wasika No. 2380 dt. 17.08.2007. | 12.07.2022 | 31.03.2022 | Rs. 2,50,00,000/- along with interest on Term Loan @ 10.95 % on monthly rests, Rs. 19,80,000/- along with interest on WCTL @ 11.10% on monthly rests and Rs. 8,95,000/- along with interest on FITL @ 8.90% on monthly rests to be calculated from 12.07.2022 |
| RAJPURA Borrower : M/S Shivalk Educational Welfare Society, Plot No. 6, Block No. 2, Patel Colony Rajpura, Distt. Patiala-140401. Guarantors : 1. Kaushal Kumar S/o Ram Prasad, C/o Gautam Engg. Works, St. No. 7, Hira Bagh, Patiala (Pb.) - 147001. 2. Sakshi Rani D/o Dinesh Kumar, 1183 B, Vikash Nagar, Rajpura, Distt. Patiala (Punjab) -140401. | 8 Kanals comprised in Khawat/Khata No.4/6, Khasra Nos. 23/19/1(3-08), 21/2(4-12) situated at Village Beer Kauli, Tehsil & District Patiala. Bounded as under : East: Agriculture Land West: Lease Land of Shivalk Educational Welfare Society, North: Road-Narru Road, South: Agriculture Land, Owned by M/S Shivalk Educational Welfare Society, Plot No. 6, Block No. 2, Patel Colony, Rajpura Town, Tehsil-Rajpura, District Patiala vide Wasika No. 3222 dated 10/06/2013 & wasika no. 3223 dated 10/06/2013. 2. Residential Property House No. 77, measuring 200 Sq. Yards, situated at Palika Vihar, Ambala City, Bounded as under : East: Rasta, West: House No. 80, North: House no 78, South: House No. 76, Owned by Smt. Vijay Kumari W/o Naresh Kumar R/o H. No. 77, Palika Vihar. Ambala City vide wasika No. 2380 dt. 17.08.2007. | 12.07.2022 | 31.03.2022 | Rs. 2,50,00,000/- along with interest on Term Loan @ 10.95 % on monthly rests, Rs. 19,80,000/- along with interest on WCTL @ 11.10% on monthly rests and Rs. 8,95,000/- along with interest on FITL @ 8.90% on monthly rests to be calculated from 12.07.2022 |
| RAJPURA Borrower : M/S Shivalk Educational Welfare Society, Plot No. 6, Block No. 2, Patel Colony Rajpura, Distt. Patiala-140401. Guarantors : 1. Kaushal Kumar S/o Ram Prasad, C/o Gautam Engg. Works, St. No. 7, Hira Bagh, Patiala (Pb.) - 147001. 2. Sakshi Rani D/o Dinesh Kumar, 1183 B, Vikash Nagar, Rajpura, Distt. Patiala (Punjab) -140401. | 8 Kanals comprised in Khawat/Khata No.4/6, Khasra Nos. 23/19/1(3-08), 21/2(4-12) situated at Village Beer Kauli, Tehsil & District Patiala. Bounded as under : East: Agriculture Land West: Lease Land of Shivalk Educational Welfare Society, North: Road-Narru Road, South: Agriculture Land, Owned by M/S Shivalk Educational Welfare Society, Plot No. 6, Block No. 2, Patel Colony, Rajpura Town, Tehsil-Rajpura, District Patiala vide Wasika No. 3222 dated 10/06/2013 & wasika no. 3223 dated 10/06/2013. 2. Residential Property House No. 77, measuring 200 Sq. Yards, situated at Palika Vihar, Ambala City, Bounded as under : East: Rasta, West: House No. 80, North: House no 78, South: House No. 76, Owned by Smt. Vijay Kumari W/o Naresh Kumar R/o H. No. 77, Palika Vihar. Ambala City vide wasika No. 2380 dt. 17.08.2007. | 12.07.2022 | 31.03.2022 | Rs. 2,50,00,000/- along with interest on Term Loan @ 10.95 % on monthly rests, Rs. 19,80,000/- along with interest on WCTL @ 11.10% on monthly rests and Rs. 8,95,000/- along with interest on FITL @ 8.90% on monthly rests to be calculated from 12.07.2022 |
| RAJPURA Borrower : M/S Shivalk Educational Welfare Society, Plot No. 6, Block No. 2, Patel Colony Rajpura, Distt. Patiala-140401. Guarantors : 1. Kaushal Kumar S/o Ram Prasad, C/o Gautam Engg. Works, St. No. 7, Hira Bagh, Patiala (Pb.) - 147001. 2. Sakshi Rani D/o Dinesh Kumar, 1183 B, Vikash Nagar, Rajpura, Distt. Patiala (Punjab) -140401. | 8 Kanals comprised in Khawat/Khata No.4/6, Khasra Nos. 23/19/1(3-08), 21/2(4-12) situated at Village Beer Kauli, Tehsil & District Patiala. Bounded as under : East: Agriculture Land West: Lease Land of Shivalk Educational Welfare Society, North: Road-Narru Road, South: Agriculture Land, Owned by M/S Shivalk Educational Welfare Society, Plot No. 6, Block No. 2, Patel Colony, Rajpura Town, Tehsil-Rajpura, District Patiala vide Wasika No. 3222 dated 10/06/2013 & wasika no. 3223 dated 10/06/2013. 2. Residential Property House No. 77, measuring 200 Sq. Yards, situated at Palika Vihar, Ambala City, Bounded as under : East: Rasta, West: House No. 80, North: House no 78, South: House No. 76, Owned by Smt. Vijay Kumari W/o Naresh Kumar R/o H. No. 77, Palika Vihar. Ambala City vide wasika No. 2380 dt. 17.08.2007. | 12.07.2022 | 31.03.2022 | Rs. 2,50,00,000/- along with interest on Term Loan @ 10.95 % on monthly rests, Rs. 19,80,000/- along with interest on WCTL @ 11.10% on monthly rests and Rs. 8,95,000/- along with interest on FITL @ 8.90% on monthly rests to be calculated from 12.07.2022 |
| RAJPURA Borrower : M/S Shivalk Educational Welfare Society, Plot No. 6, Block No. 2, Patel Colony Rajpura, Distt. Patiala-140401. Guarantors : 1. Kaushal Kumar S/o Ram Prasad, C/o Gautam Engg. Works, St. No. 7, Hira Bagh, Patiala (Pb.) - 147001. 2. Sakshi Rani D/o Dinesh Kumar, 1183 B, Vikash Nagar, Rajpura, Distt. Patiala (Punjab) -140401. | 8 Kanals comprised in Khawat/Khata No.4/6, Khasra Nos. 23/19/1(3-08), 21/2(4-12) situated at Village Beer Kauli, Tehsil & District Patiala. Bounded as under : East: Agriculture Land West: Lease Land of Shivalk Educational Welfare Society, North: Road-Narru Road, South: Agriculture Land, Owned by M/S Shivalk Educational Welfare Society, Plot No. 6, Block No. 2, Patel Colony, Rajpura Town, Tehsil-Rajpura, District Patiala vide Wasika No. 3222 dated 10/06/2013 & wasika no. 3223 dated 10/06/2013. 2. Residential Property House No. 77, measuring 200 Sq. Yards, situated at Palika Vihar, Ambala City, Bounded as under : East: Rasta, West: House No. 80, North: House no 78, South: House No. 76, Owned by Smt. Vijay Kumari W/o Naresh Kumar R/o H. No. 77, Palika Vihar. Ambala City vide wasika No. 2380 dt. 17.08.2007. | 12.07.2022 | 31.03.2022 | Rs. 2,50,00,000/- along with interest on Term Loan @ 10.95 % on monthly rests, Rs |

2 कंपनी समाचार

संक्षेप में

सौविक बनर्जी रिजॉल्व के सीईओ बने

हाल में टाटा डिजिटल के संस्थापक सीटीओ के पद से इस्तीफा देने वाले सौविक बनर्जी ब्रिटेन की मोबाइल कॉमर्स एवं इंजैजमेंट कंपनी रिजॉल्व के वैश्विक मुख्य कार्याधिकारी (प्रोडक्ट्स, टेक्नोलॉजी एवं डिजिटल सेवा) के तौर पर शामिल हुए हैं। टाटा डिजिटल में सीटीओ की जिम्मेदारी निभाने से पहले बनर्जी टाटा क्लिक (टाटा संस का ई-कॉमर्स मार्केटप्लेस) के संस्थापक सीटीओ भी थे। अपने करियर के शुरू में बनर्जी ने वेंडा में भी काम किया था। वेंडा रिजॉल्व के चेयरमैन एवं मुख्य कार्याधिकारी डेन वैगनर द्वारा स्थापित उद्यमों में से एक था, जिसे वर्ष 2014 में ओरकल को बेच दिया गया था। रिजॉल्व मोबाइल कॉमर्स एवं इंजैजमेंट के लिए एंटरप्राइज सास प्लेटफॉर्म है और उपभोक्ताओं तथा व्यवसायियों के बीच संवाद में नया बदलाव लाने में सक्षम मोबाइल इंजैजमेंट का इंजन बनने की राह पर बढ़ रहा है।

बीएस

स्वैडस्टैक ने जुटाए 140 करोड़ रुपये

बिक्री के लिए सास-आधारित प्रतिभा मार्केटप्लेस स्वैडस्टैक ने सीरीज बी राउंड में 140 करोड़ रुपये जुटाए हैं। यह एकम बटलर्समान इंडिया इन्वेस्टमेंट्स के नेतृत्व में मौजूदा निवेशकों चिराते वेंचर्स और ब्लूम वेंचर्स की मदद से जुटाई गई है। स्वैडस्टैक की स्थापना किसी को, कहीं भी कुशल कार्य तक पहुंच उपलब्ध कराने के विजन के साथ 2017 में की गई थी। स्वैडस्टैक ने मौजूदा बिक्री प्रतिभाओं के साथ भागीदारी कर उन्हें स्मार्टफोन की मदद से कहीं से भी काम करने में सक्षम बनाया है।

भाषा

देश भर में 5जी लाएगी एयरटेल

पूरे देश में 5जी सेवा शुरू करने की तैयारी, मार्च 2024 तक सभी शहरों को कवर का लक्ष्य

अनीश फडणीस मुंबई, 9 अगस्त

भारती एयरटेल जल्द ही देश भर में अपनी 5जी सेवाएं शुरू करने जा रही है। कंपनी का कहना है कि वह मार्च 2024 तक देश के सभी शहरों एवं ग्रामीण इलाकों तक अपनी 5जी सेवाएं पहुंचा देगी। कंपनी के मुख्य कार्याधिकारी एवं प्रबंध निदेशक गोपाल विट्टुल ने वित्तीय नतीजे के बाद विश्लेषकों से बातचीत में कहा, 'हमारा इरादा अगस्त से 5जी सेवाएं शुरू करने का है। वास्तव में देश के 5,000 शहरों में 5जी नेटवर्क को चालू करने की विस्तृत योजना पूरी तरह तैयार है।'

हालांकि विट्टुल ने यह नहीं बताया कि अगस्त में किस तारीख को एयरटेल अपनी 5जी सेवाओं को शुरूआत करेगी। उन्होंने कहा कि कंपनी को अपने 5जी प्लान के लिए मूल्य निर्धारित करना अभी बाकी है। वित्त वर्ष 2023 की पहली तिमाही में एयरटेल का शुद्ध लाभ करीब छह गुना बढ़कर 1,606 करोड़ रुपये हो गया। उसने 5जी के लिए एरिक्सन, नोकिया और सैमसंग के साथ नेटवर्क करार किए हैं।

विट्टुल ने कहा, 'हालांकि अगले तीन वर्षों के लिए हमारी पूंजीगत खर्च योजना लगभग समान स्तर पर बरकरार रहेगी लेकिन 5जी सेवाओं को तेजी से शुरू करने के कारण सालाना आधार पर

5जी की तैयारी

एयरटेल ने कहा कि देश के 5,000 शहरों में 5जी नेटवर्क को चालू करने की योजना पूरी तरह तैयार है

■ सीईओ गोपाल विट्टुल ने कंपनी की स्पेक्ट्रम खरीद रणनीति का बचाव किया

■ रिलायंस जियो शीर्ष 1,000 शहरों में 5जी कवरेज की योजना पूरी कर चुकी है

■ जियो स्वदेशी 5जी स्टैक का उपयोग करेगी और वह एकल 5जी नेटवर्क की तैनाती करेगी

पूंजीगत खर्च में कुछ वृद्धि भी हो सकती है।' विट्टुल ने कहा, 'वैश्विक स्तर पर 5जी के कारण किसी भी दूरसंचार ऑपरेटर के प्रति उपयोगकर्ता औसत राजस्व (एआरपीयू) में कोई खास वृद्धि नहीं हुई है। भारत में शुल्क दरें अभी भी काफी कम हैं। हम उम्मीद करते हैं कि शुल्क दरों में इजाफा होगा। इससे हमारी अर्थव्यवस्था में बदलाव आएगा और पूंजी निवेश पर रिटर्न कहीं बेहतर होगा।' उन्होंने एयरटेल की स्पेक्ट्रम खरीद रणनीति का भी बचाव किया और कहा कि यह कम लागत पर सबसे अच्छा 5जी अनुभव प्रदान करने संबंधी कंपनी के लक्ष्य को पूरा करती है।

भारती एयरटेल ने हाल में हुई स्पेक्ट्रम नीलामी के तहत 43,084 करोड़ रुपये में 19,867 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम हासिल



किया है। प्रतिस्पर्धी सेवा प्रदाता रिलायंस जियो ने 700 मेगाहर्ट्ज बैंड में स्पेक्ट्रम हासिल किया है और उसने खुद अपना नेटवर्क विकसित करने की योजना बनाई है। 700 मेगाहर्ट्ज बैंड के तहत व्यापक कवरेज मिलता है जबकि एकल नेटवर्क से एंटरप्राइज संबंधी व्यापक अवसरों को भुनाने में मदद मिलेगी। इन एंटरप्राइज अवसरों में रिमोट सिनर्जी, रोबोटिक्स, ऑटोनोमस कार आदि शामिल हैं।

विट्टुल ने कहा कि 700 मेगाहर्ट्ज बैंड के बारे में काफी प्रतिक्रिया है। उन्होंने विश्लेषकों से कहा, 'यह बैंड प्रसार के लिहाज से 850 मेगाहर्ट्ज अथवा 900 मेगाहर्ट्ज बैंड से बिल्कुल अलग नहीं है। ये सभी बैंड बेहतर, घरों के भीतर और दूरदराज के क्षेत्रों तक कवरेज प्रदान करने में समर्थ हैं। और बेहतरीन 4जी

स्पीड प्रदान करते हैं।' एयरटेल एक गैर-एकल नेटवर्क की तैनाती करेगी और पिछले कुछ वर्षों के दौरान उसने अपनी 5जी रणनीति के तहत काफी सोच-समझकर कई सॉल्यूटिंस में मजबूती बैंड में स्पेक्ट्रम की खरीदारी की है।

सभी उपकरण गैर-एकल मोड में काम करेंगे और इसे व्यापक परिवेश से भी मदद मिलेगी। विट्टुल ने कहा, 'अमेरिका और दक्षिण कोरिया में एकल और गैर-एकल यानी दोनों तरह के नेटवर्क लॉन्च किए गए हैं लेकिन एकल नेटवर्क पर टैफिक कुल 5जी टैफिक के मुकाबले 10 फीसदी से भी कम है।' उन्होंने कहा कि कंपनियां बिना किसी लागत के मौजूदा 4जी प्रौद्योगिकी का उपयोग कर सकती हैं।

अमेरिका, यूरोपीय बाजारों में मजबूती

भाषा बेंगलूर, 9 अगस्त

भारत की दूसरी सबसे बड़ी सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) सेवा प्रदाता कंपनी इन्फोसिस के मुख्य कार्याधिकारी (सीईओ) सलिल पारेख ने मंगलवार को कहा कि वैश्विक स्तर पर आईटी खर्च बेहतर होने के साथ चालू वित्त वर्ष के लिए राजस्व वृद्धि के परिदृश्य को बढ़ाकर 14 से 16 प्रतिशत किया गया है और यह काफी संतोषजनक है।

पारेख ने एक साक्षात्कार में कहा कि कंपनी अमेरिकी और यूरोपीय बाजारों में लगातार मजबूती देख रही है। हालांकि, कंपनी वृहद आर्थिक परिवेश पर भी नजर रखे हुए है क्योंकि ये चीजें ऐसी हैं, जिन पर निरंतर ध्यान देने की जरूरत है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में मंदी की आशंका के बीच इन्फोसिस के सीईओ ने यह बात कही है। कई विश्लेषकों ने ऊंची महंगाई दर को लेकर चिंता जताई है और कुछ बड़ी वैश्विक तकनीकी कंपनियां आर्थिक नरमी की आशंका के बीच आक्रामक नियुक्ति योजनाओं से पीछे हट रही हैं। पारेख ने कहा कि वैश्विक स्तर पर सूचना प्रौद्योगिकी पर खर्च अच्छी स्थिति में है और ग्राहक डिजिटलीकरण पर पूरा ध्यान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि लागत दक्षता और स्वचालन दोहरे इंजन के रूप में काम कर रहे हैं। पारेख ने कहा कि आने वाले समय में वैश्विक अर्थव्यवस्था के समक्ष समस्याएं बढ़ती हैं, तो स्वचालन तथा लागत दक्षता कंपनियों के लिए और महत्वपूर्ण होगी। उन्होंने कहा, 'पहली तिमाही में हमारी वृद्धि 21 प्रतिशत रही और हमने पूरे वित्त वर्ष में राजस्व वृद्धि का अनुमान 14 से 16 प्रतिशत किया है। हम इस साल इतनी वृद्धि देख रहे हैं, जो काफी संतोषजनक है।'

पारेख ने कहा कि मुद्रास्फीति को लेकर काफी बात हो रही है और यह ऊंची बनी हुई है। हालांकि, अमेरिका और यूरोप में जुलाई में ग्राहकों के खर्च के आंकड़ों में सालाना आधार पर वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा, 'यह एक अलग सुधार को बताता है। उपभोक्ता खर्च का आंकड़ा अच्छा है और यह एक उदाहरण है कि जो बताता है कि क्या हो रहा है।' कंपनी के निदेशक मंडल और संस्थापकों के बीच कंपनी संचालन को लेकर सार्वजनिक स्तर पर विवाद और सीईओ विशाल सिक्का के इन्फोसिस से बाहर होने के बाद पारेख ने जनवरी, 2018 में आईटी क्षेत्र की कंपनी की बागडोर संभाली थी। पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने कंपनी को चुनौतियों से बाहर निकाला और उसे फिर से मजबूती के रास्ते पर लेकर आए।



आईटी बाजार

■ आईटी पर खर्च बेहतर, अमेरिका, यूरोपीय बाजारों में मजबूती बरकरार

■ इन्फोसिस के मुख्य कार्याधिकारी का कहना है कि वैश्विक स्तर पर आईटी खर्च की संभावनाएं अच्छी हैं

■ कुछ विश्लेषकों ने ऊंची महंगाई को लेकर चिंता जताई है और वैश्विक तकनीकी कंपनियों नियुक्ति योजनाओं से पीछे हट रही हैं

| जेएचएस स्वेनगार्ड लेबोरेटरीज लिमिटेड | | | | |
|---|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| पंजीकृत कार्यालय: त्रिलोकपुरी रोड, खेड़ी (काला आम), तहसील-नाहन, जिला-सिरमौर, हिमाचल प्रदेश-173030, भारत | | | | |
| सीआरएन: एन4110एचपी2004पीएलसी027568 | | | | |
| 30 जून, 2022 को समाप्त तिमाही के लिए अलेखापरीक्षित समेकित वित्तीय परिणामों के विवरण का सारांश | | | | |
| विवरण | 30 जून, 2022 को समाप्त तिमाही | 31 मार्च, 2022 को समाप्त तिमाही | 30 जून, 2021 को समाप्त तिमाही | 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष |
| | अलेखापरीक्षित | लेखापरीक्षित | अलेखापरीक्षित | लेखापरीक्षित |
| प्रचालनों से कुल आय | 2278.61 | 2149.47 | 2,416.30 | 9,564.23 |
| अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (कर, विशिष्ट मद और/या असाधारण मदों से पूर्व) | (236.64) | (5.97) | (15.91) | 10.30 |
| अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (कर पूर्व, विशिष्ट और/या असाधारण मदों के पश्चात) | (236.64) | (5.97) | (15.91) | 10.30 |
| अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (विशिष्ट और/या असाधारण मदों के पश्चात) | (415.81) | (443.41) | (28.57) | (428.94) |
| अवधि के लिए कुल समग्र आय | (413.85) | (442.15) | (26.36) | (421.09) |
| इक्विटी शेयर पूंजी (अंकिता मूल्य रु. 10 प्रत्येक) | 6,490.05 | 6490.05 | 6,440.05 | 6,490.05 |
| आरक्षित निधि (मुनू-मूल्यांकन आरक्षित को छोड़कर) | | | | 12,191.04 |
| अर्जन प्रति इक्विटी शेयर (रु. 10 प्रत्येक) (ए) बेसिक (रु.) (बी) अडजस्टेड (रु.) | (0.59) (0.59) | (0.68) (0.68) | (0.02) (0.02) | (0.63) (0.63) |

एकल वित्तीय परिणामों के महत्वपूर्ण अंकड़े

| विवरण | 30 जून, 2022 को समाप्त तिमाही | 31 मार्च, 2022 को समाप्त तिमाही | 30 जून, 2021 को समाप्त तिमाही | 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष |
|--|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | अलेखापरीक्षित | लेखापरीक्षित | अलेखापरीक्षित | लेखापरीक्षित |
| प्रचालनों से कुल आय | 2,039.12 | 1926.01 | 2,251.75 | 8,804.98 |
| अवधि के लिए लाभ / (हानि) (असाधारण गतिविधियों के पश्चात किंतु कर पूर्व) | (128.97) | 13.33 | 48.83 | 192.39 |
| अवधि के लिए लाभ / (हानि) (असाधारण गतिविधियों के पश्चात) | (332.26) | (368.65) | 33.48 | (244.17) |
| अवधि के लिए कुल समग्र आय | (331.22) | (368.03) | 34.66 | (240.01) |

नोट: ऊपर सेबी (सूचीबद्ध और अन्य प्रकटन आवश्यकताएं) विनियमवली, 2015 के विनियम 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंज में पेश किए गए 30 जून, 2022 को समाप्त तिमाही के लिए वित्तीय परिणामों के विस्तृत रूप का सारांश है। 30 जून, 2022 को समाप्त तिमाही के लिए वित्तीय परिणामों का पूर्ण रूप बीएसई और एनएसई की वेबसाइट क्रमशः www.bseindia.com और www.nseindia.com तथा कंपनी की वेबसाइट www.svendgaard.com पर उपलब्ध है।

जेएचएस स्वेनगार्ड लेबोरेटरीज लिमिटेड के लिए व-उन्नी की ओर से
हस्ता./-
निखिल नंदा
प्रबंध निदेशक
सीआईएन: 00081501

आधार हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड

कार्पोरेट कार्यालय : युनिट नं. 802, नटराज रुस्तमजी, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे एवं एम.वी. रोड, अंधेरी (पश्चिम), मुम्बई - 400069

पटियाला शाखा : बी-17/423, दूसरी मंजिल, सेटी कॉम्प्लेक्स, पोलोग्राउंड के सामने, मोदी कॉलेज चौक, लोअर मॉल रोड, पटियाला-147001 (पंजाब) प्राधिकृत अधिकारी: मनोज कुमार संपर्क क्रं. 8567000123



नीलाभी सह विक्री हेतु सार्वजनिक सूचना

सिक्क्युटरीजेशन एण्ड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनेंशियल असेट्स एण्ड इन्फोसिमेंट ऑफ सिक्क्युटरी इंटरस्ट एक्ट 2002 के अंतर्गत आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ऋण की ओर बकाया धनराशि की वसूली हेतु निम्न वर्णित प्रतिभूत आस्तियों का आधिपत्य लेने के अनुक्रम में, अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा अचल सम्पत्ति, जिन्हें नीचे वर्णित किया गया है, जो कि मौखिक आधिपत्य में है, के "जहाँ है, जैसी है और जो है" के आधार पर क्रय हेतु सीलबंद लिफाफों में प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते हैं, जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

| क्रं. | ऋणी(ओं) सह ऋणी(यों) /जमानतदार | मांग सूचना दिनांक एवं राशि | अचल संपत्ति का विवरण | आरक्षित मूल्य (RP) | ब्याना जमा राशि (ईएमपी) (RP का 10%) |
|-------|--|----------------------------|--|--|--------------------------------------|
| 1 | (कम्बाईनड ऋण खाता क्रं. 10200000383/पटियाला शाखा) में गो लाल (ऋणी) द्रोणपती पति मंगे (सहऋणी) | 08-06-2021 & ₹ 6.61,295/- | सम्पत्ति के समस्त शेष एवं संपूर्ण भाग, खाता नं. 223/323 स्थित मकान, शिव मंदिर के पास, शास्त्री नगर, तोहाना नरवाना, जिंद, हरियाणा 126116 ऋ.सीमा : पूर्व : ललिता का प्लाट, पश्चिम : जगदीश का प्लाट, उत्तर : 18 फीट चौड़ी गली, दक्षिण : विक्रता का प्लाट 10 फीट 0 इंच | ₹ 4,14,000/- (समस्त चार लाख चौदह हजार मात्र) | ₹ 41,400/- (चार लाख चौदह हजार मात्र) |

- उपरोक्त वर्णित शाखा कार्यालय के पते पर निर्धारित निविदा प्रारूप में ईएमपी एवं केवायसी सहित सीलबंद प्रस्ताव जमा करने की अंतिम तिथि 12.09.2022 सायं 5.00 बजे रहेगी। निविदाएं जो पूर्णतः विधिवत रूप से भरी नहीं जाएंगी अथवा निविदाएं जो अंतिम तिथि के पश्चात प्राप्त होंगी, को बहिष्कृत करने में स्वीकार नहीं किया जायेगा एवं तदनुसार निरस्त कर दी जाएंगी। ईएमपी पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
- उपरोक्त वर्णित शाखा कार्यालय के पते पर प्रस्ताव खोलने की तिथि एवं 13.09.2022 को समय सायं 3.00 बजे है, निविदा को प्राधिकृत अधिकारी की उपस्थिति में खोला जायेगा।
- ऋणी एवं जमानतदार को एवदनुसार विक्रय के समय व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए सूचित किया जाता है एवं वे, विक्रय के नियम एवं शर्तों के अनुसार, उपरोक्तानुसार वर्णित अचल सम्पत्ति को क्रय करने के लिए प्रस्तावित क्रेतागण को साथ ला सकेंगे।
- यह 30 दिनों का विक्रय नोटिस सरफेसी एक्ट 2002 के तहत आम तौर पर जनता विशेष रूप से उधार्कर्ता (ओं), सह उधार्कर्ता(ओं), जमानतदार(ओं) को दिया जाता है कि उपर वर्णित अचल संपत्ति को सुरक्षित लेनदारों के पास बंधक /प्रभारित किया गया है। आधार हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड (एचएफएल) सुरक्षित लेनदार, के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा मौखिक कब्जा ले लिया है, जिसे जहाँ है जैसी है तथा जिस अवस्था में है और आधार हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड की मौखिक बकाया राशि के आधार पर बेचा जाएगा, बिक्री की तारीख से पहले पूर्ण रूप से, नीलामी विज्ञापन से जाने के लिए उत्तरदायी है।
- अचल सम्पत्ति को सबसे ऊंची निविदा (बोली) लगाने वाले को विक्रय किया जायेगा। हालांकि अधोहस्ताक्षरकर्ता को अन्तर बोली (निविदा), यदि आवश्यक हो तो, को स्वीकार करने का एकमेव विवेकाधिकार रहेगा। दी गई संपत्ति का विक्रय आरक्षित मूल्य से कम राशि पर नहीं होगा।
- एचएफएल उपरोक्त दस्तावेजों सह संपत्ति को उपर किसी भी प्रकार के दस्तावेजों के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। संपत्ति की नीलामी "जहाँ है जैसी है, जो है तथा जिस अवस्था में है" के आधार पर की जायेगी।
- डिमांड ड्राफ्ट आधार हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड के पक्ष में बनाए जाएंगे।
- नीलामी विक्रय की विस्तृत नियम एवं शर्तें निर्धारित निविदा प्रारूप में समाविष्ट की गई हैं। निविदा प्रारूप उपरोक्त शाखा कार्यालय पर उपलब्ध हैं। प्राधिकृत अधिकारी के पास निविदा की तिथि बढ़ाने एवं प्रस्ताव के नियम व शर्तों में परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा। बोली की अन्य नियम एवं शर्तें व अन्य जानकारी हेतु हमारी शाखा या वेबसाइट www.aadharhousing.com पर जाएं। अधिक जानकारी के लिए प्राधिकृत अधिकारी से उपरोक्त पते पर संपर्क करें।

स्थान : जिंद दिनांक : 09.08.2022 सह।/- प्राधिकृत अधिकारी आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

विदेशी उड़ान के लिए रिकॉर्ड साझा करना जरूरी

अनीश फडणीस और श्रीमी चौधरी मुंबई/दिल्ली, 9 अगस्त

केंद्र ने अंतरराष्ट्रीय विमानों द्वारा देश में आने और देश से जाने वाले सभी यात्रियों की जानकारी को 8 अगस्त से कस्टम विभाग के साथ साझा करने का आदेश दिया है। निगरानी में सुधार के लिए यात्रियों का जोखिम-विश्लेषण करने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है। इससे

तस्करी के बढ़ते मामलों को पता लगाने और रोकने में विभाग की मदद मिलेगी।

सोमवार को जारी एक अधिसूचना में कस्टम विभाग के नोडल प्राधिकरण के राष्ट्रीय अप्रत्यक्ष कोर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने कहा कि प्रत्येक विमान संचालक को अब पंजीकरण करने और एक निर्धारित प्रारूप में यात्री नाम रिकॉर्ड (पीएनआर) विवरण प्रदान करने

की आवश्यकता है। सीबीआईसी ने अधिसूचना में बताया कि इस रिकॉर्ड में पीएनआर, आरक्षण और टिकट जारी करने की तिथि, उड़ान की संख्या, और लाभ संबंधी जानकारी (जैसे निःशुल्क टिकट, अपग्रेड), सभी उपलब्ध भुगतान/बिलिंग जानकारी (जैसे क्रेडिट कार्ड नंबर), विशेष पीएनआर के लिए यात्रा कार्यक्रम, ट्रेवल एजेंसी / ट्रेवल एजेंट से जुड़ी जानकारी शामिल है।

अहमदनगर महानगर निगम, अहमदनगर

ई निविदा सूचना क्रमांक १३/ सन २०२०-२३

वसंत टेकडी जलकुंभ से एम एन पी क्षेत्र में टैंकर द्वारा पानी की आपूर्ति की जानी है और इसके लिये जीपीएस सिस्टिमवाला टैंकर वर्ष २०२२-२३ के लिए प्रति टन दर पूछ रहा है

अहमदनगर नगर निगम, अहमदनगर ही निविदा सूचना क्रमांक १३/ सन २०२२-२३ वर्ष २०२२-२३ ०१ कार्य ई निविदा सूचना संख्या १३/ वर्ष २०२२-२३ ई निविदा मोड के माध्यम से ऑनलाइन आमंत्रण के लिए वेबसाइट <http://mahaetenders.gov.in> पर प्रकाशित किया गया है ! हालांकी संबंधित को इस पर ध्यान देना चाहिए ! (माननीय आयुक्त के अनुमोदन से)

हायड्रोलिक इंजिनियर,अहमदनगर नगर निगम

| रायदीप इंडस्ट्रीज लिमिटेड | | | | |
|---|----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|
| CIN: L18101PB1995PLC017415 | | | | |
| पंजी. कार्यालय : सी-193 ए, फेज-6, फाकल पॉइंट, लुधियाना, पंजाब-141010 | | | | |
| फोन नंबर : +91-161-2676893 | | | | |
| वेबसाइट: www.raideepindustries.com , ई-मेल आईडी: raitecx3@gmail.com | | | | |
| 30 जून, 2022 को समाप्त तिमाही हेतु समेकित अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का संक्षिप्त विवरण | | | | |
| [सेबी (एनओडीआर) विनियमवली, 2015 का विनियम 47(1)(घ)] | | | | |
| Particulars | तिमाही समाप्त | | वर्ष समाप्त | |
| | 30.06.2022 (अलेखापरीक्षित) | 31.03.2022 (लेखापरीक्षित) | 30.06.2021 (अलेखापरीक्षित) | 31.03.2022 (लेखापरीक्षित) |
| प्रचालनों से कुल आय | 287.47 | 666.86 | 189.77 | 2010.22 |
| अन्य आय | 17.27 | 19.96 | 13.75 | 69.08 |
| अवधि हेतु शुद्ध लाभ / (हानि) (कर, अपवाद तथा/अथवा असाधारण मदों से पहले) | 4.16 | 6.34 | 5.33 | 22.22 |
| अवधि हेतु शुद्ध लाभ / (हानि), कर से पहले (अपवाद तथा/अथवा असाधारण मदों के बाद) | 4.16 | 6.34 | 5.33 | 22.22 |
| अवधि हेतु शुद्ध लाभ / (हानि), कर पश्चात (अपवाद तथा/अथवा असाधारण मदों के बाद) | 3.16 | 4.48 | 3.93 | 16.36 |
| सहयोगियों और संयुक्त उद्यमों के शुद्ध लाभ का अंश, साम्यता विधि का उपयोग करते हुए लेखाबद्ध | 16.98 | 25.35 | 9.87 | 68.00 |
| अवधि हेतु कुल समावेशी आय [जिसमें अवधि हेतु लाभ / (हानि) (कर पश्चात) तथा अन्य समावेशी आय पश्चात] सम्मिलित हैं] | 20.14 | 29.83 | 13.80 | 84.36 |
| इक्विटी शेयर पूंजी | 550.80 | 550.80 | 550.80 | 550.80 |
| संचय (पुनर्मूल्यन संचय छोड़कर जैसाकि पिछले वर्ष के लेखापरीक्षित तुलनापत्र में दर्शाया गया है) | - | - | - | 133.02 |
| प्रति शेयर अर्जन (रु. 10/- प्रत्येक का) जारी और बंदप्रचालनों हेतु) | 0.37 | 0.54 | 0.25 | 1.53 |
| 1. मूल : | 0.37 | 0.54 | 0.25 | 1.53 |
| 2. तनुकृत: | 0.37 | 0.54 | 0.25 | 1.53 |
| नोट : | | | | |
| 1. 30 जून, 2022 को समाप्त तिमाही और वर्ष हेतु पृथक्कृत लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों के संबंध में सूचना निम्नानुसार है। | | | | |
| विवरण | 30.06.2022 (त्रयमासिक) | 31.03.2022 (वार्षिक) | | |
| टर्नओवर | 304.74 | 2079.30 | | |
| कर पूर्व लाभ | 4.16 | 22.22 | | |
| कर पश्चात लाभ | 3.16 | 16.36 | | |
| 2. उपरोक्त विवरण सेबी (सूचीयन दायित्व और प्रकटीकरण अध्याय) विनियमवली, 2015 के विनियम 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंज के प्रस्तुत किए गए तिमाही वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का संक्षिप्त विवरण है। तिमाही वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.bseindia.com तथा कम्पनी की वेबसाइट www.raideepindustries.com पर उपलब्ध है। | | | | |
| वास्ते रायदीप इंडस्ट्रीज लिमिटेड हस्ता./- (राय साहिब) प्रबंध निदेशक DIN: 01582498 | | | | |
| तिथि : 08.08.2022 | | | | |
| स्थान : लुधियाना | | | | |

फिनटेक बाजार की बढ़ रही रफ्तार

बीएस संवाददाता मुंबई, 9 अगस्त

वर्ष 2030 तक भारतीय फिनटेक बाजार की प्रबंधन अधीन परिसंपत्तियां (एयूएम) 10 गुना बढ़कर 1 लाख करोड़ डॉलर और राजस्व 200 अरब डॉलर पर पहुंच जाने की संभावना है। चिराते वेंचर्स द्वारा अंस्ट्रैंट एंड यंग (ईवाई) की भागीदारी में जारी '1 ट्रिलियन डॉलर फिनटेक अर्पांच्युनिटी' शीर्षक वाली रिपोर्ट में कहा गया है कि ज्यादातर वृद्धि डिजिटल उधारी बाजार पर आधारित होगी, जिसके वर्ष 2030 तक बहीखाते आकार के संदर्भ में बढ़कर 5.15 अरब डॉलर पर पहुंच जाने की संभावना है। भारत को अब सबसे बड़े फिनटेक यूनिर्कॉन इकोसिस्टम में से एक के तौर पर संदर्भ में बढ़कर 5.15 अरब डॉलर पर पहुंच जाने की संभावना है। भारत को अब सबसे बड़े फिनटेक यूनिर्कॉन इकोसिस्टम में से एक के तौर पर संदर्भ में बढ़कर 5.15 अरब डॉलर पर पहुंच जाने की संभावना है। भारत को अब सबसे बड़े फिनटेक यूनिर्कॉन इकोसिस्टम में से एक के तौर पर संदर्भ में बढ़कर 5.15 अरब डॉलर पर पहुंच जाने की संभावना है। भारत को अब सबसे बड़े फिनटेक यूनिर्कॉन इकोसिस्टम में से एक के तौर पर संदर्भ में बढ़कर 5.15 अरब डॉलर पर पहुंच जाने की संभावना है।

एमआरएफ का लाभ बढ़ा

टायर कंपनी एमआरएफ लि. का एकीकृत परिचालन लाभ चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-जून तिमाही में 25.35 फीसदी घटकर 123.6 करोड़ रुपये रहा। एमआरएफ लि. ने शेयर बाजार को यह जानकारी दी। एक साल पहले 2021-22 की इसी तिमाही में कंपनी का शुद्ध लाभ 165.58 करोड़ रुपये था। कंपनी की एकीकृत आय इस तिमाही में बढ़कर 5,695.93 करोड़ रुपये रही जो एक साल पहले 2021-22 की इसी तिमाही में 4,183.96 करोड़ रुपये थी। कंपनी का खर्च जून, 2022 को समाप्त तिमाही में 5,566.63 करोड़ रुपये रहा।

जोई पावर इंडिया का जून तिमाही का घाटा कम होकर 59 करोड़ रुपये पर जोई पावर इंडिया का घाटा वित्त वर्ष 2022-23 की अप्रैल-जून तिमाही में कम होकर 59.02 करोड़ रुपये रह गया।

कंपनी ने शेयर बाजार को यह जानकारी दी। इससे पिछले साल की समान तिमाही में कंपनी को 114.99 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था। जून तिमाही में कंपनी की कुल आय 520.02 करोड़ रुपये रही, जो एक साल पहले की इसी अवधि में 551.20 करोड़ रुपये थी। सीमाधीन अवधि में कंपनी का खर्च 583.33 करोड़ रुपये रहा, जो अप्रैल-जून 2021 में 703.84 करोड़ रुपये था।